



Sr. No. 622/2020/93013

Date- 30-09-2021

कार्यालय सूचना

सत्र 2021-23 के सभी प्रशिक्षुओं हेतु प्रवेश, छात्रवृत्ति व प्रशिक्षण सम्बन्धित सूचना-

1. प्रवेश सम्बन्धित-

- जिन प्रशिक्षुओं का प्रमाण पत्र सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है उनको यह अंतिम मौका दिया जा रहा है कि वो दिनांक 02/10/2021 को शाम 4 बजे तक अवश्य करा लें। उसके बाद बिना किसी प्रकार का सूचना दिए नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। सत्र 2021 में हाई स्कूल उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षु को अगर मूल प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसे प्रशिक्षु कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र दे दें।
- नामांकन के दौरान यह अवगत कराया गया है कि आपको कम से कम 5000/- जमा करना होता है तो ऐसे प्रशिक्षु जिनका 5000/- से कम शुल्क जमा है वो दिनांक 10/10/2021 तक किसी भी दशा में अपना शुल्क जमा कर दें उदारहण के लिए किसी ने नामांकन के दौरान 2000/- शुल्क जमा किया था वो 3000/- अवश्य जमा कर दें।
- जो प्रशिक्षु नामांकन के बाद से अभी तक क्लास में उपस्थित नहीं हो रहे हैं वो जल्द अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएँ अन्यथा 75% से उपस्थिति कम होने पर छात्रवृत्ति फॉर्म अग्रसारित नहीं किया जाएगा।

2. छात्रवृत्ति सम्बन्धित-

- ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने प्रमाण पत्र सत्यापन करा लिया है वो छात्रवृत्ति पंजीकरण का कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं परन्तु कोई भी प्रशिक्षु फॉर्म लॉक नहीं करेगा।
- दिनांक 04/10/2020 से फॉर्म जांच का कार्य होगा उसके बाद ही आप फॉर्म को लॉक करेंगे।
- फॉर्म पंजीकरण के समय विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त पंजीयन क्रमांक में आपके मोबाइल एप या रसीद पर प्राप्त एडमिशन नंबर को भरेंगे जो 2021___ से प्रारम्भ होता है।
- बोर्ड के नाम में Vocational Education Board भरना है।
- शिक्षण संस्थान में जमा की गयी राशि में 18000/- भरना है।

3. प्रशिक्षण सम्बन्धित-

- सभी प्रशिक्षु जल्द से जल्द सभी विषयों की कॉपी बना लें ताकि सुचारु रूप से पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर सकें।
- प्रशिक्षुओं के आग्रह पर ड्रेस सम्बन्धित छुट को 30/09/2021 से बढ़ा कर 05/10/2021 तक किया जाता है आप ड्रेस ना होने के कारण क्लास में अनुपस्थित ना हों।
- सभी प्रशिक्षु प्रातः काल आरती में शामिल होने का प्रयास करें बार बार विलम्ब करने पर आपको दण्डित किया जा सकता है।
- पढाई में किसी प्रकार की समस्या आने पर आप निःसंकोच अपने अनुदेशक या कार्यालय से संपर्क करें साथ ही प्रातः काल योग का अभ्यास कर पढाई करने की क्षमता का विकास करें।

